

सैनिटाइजर की बोतल पर लगाए फर्जी लेबल

Publish Date: Mon, 16 Mar 2020 08:17 PM (IST)



सैनिटाइजर की बोतल पर लगाए जा रहे लेबल भी फर्जी पाए गए है। ड्रग विभाग की जांच टीम ने सोमवार को लेवल में दर्शाए गए पते पर जाकर स्थलीय जांच की तो यह फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। जांच टी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सैनिटाइजर की बोतल पर लगाए जा रहे लेबल भी फर्जी पाए गए है। ड्रग विभाग की जांच टीम ने सोमवार को लेवल में दर्शाए गए पते पर जाकर स्थलीय जांच की तो यह फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। जांच टीम के मुताबिक कविनगर क्षेत्र में रविवार को पकड़ी गई नकली सैनिटाइजर की फैक्ट्री संचालकों के कई राज खुले हैं।

ड्रग इंस्पेक्टर पूरन चंद ने बताया कि छापे के दौरान सैनिटाइजर की बोतल पर लगाए गए लेवल में ओटम इंटरनेशनल लैबोरेट्री आनंद इंडस्ट्रीयल एरिया मोहननगर का पता दिया गया है। जांच टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर इंजीनियरिंग वर्क के अलावा फूड लैब चलती हुई पाई गई। जांच में पता चला है कि नकली फैक्ट्री के साथ ही पूरा सामान फर्जी ही उपयोग किया जा रहा था। नकली फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ ड्रग एक्ट के अलावा आइपीसी की कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताया गया है कि लोनी, डासना, पसौंडा के अलावा मुरादनगर क्षेत्र में भी ऐसी नकली फैक्ट्री संचालित किए जाने की सूचना आ रही है। इनका पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कभी भी छापामार कार्यवाही की जा सकती है।

बता दें कि रविवार को कविनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर बम्हेटा गांव की मानसरोवर पार्क कालोनी के एक घर में चल रही नकली सैनिटाइजर फैक्ट्री पर छापामार करीब दस लाख का माल बरामद किया गया था। छापे के दौरान 1500 लीटर लिक्विड, ढाई हजार तैयार की गई बोतल और सैनिटाइजर बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें बरामद की गई थीं। नकली फैक्ट्री के संचालकों के पास कोई लाइसेंस भी नहीं था। फैक्ट्री का संचालन वीरेंद्र कुमार सिंह व अतुल कुमार द्वारा किया जा रहा था। रिपोर्ट में विकास, सुनील, विवेक व रणपाल को भी नामजद कराया गया है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/ghaziabad-the-labels-on-the-sanitizer-bottle-were-found-to-be-fake-20116156.html>